

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-17012024-251388  
SG-DL-E-17012024-251388असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2024/पौष 26, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 389
No. 22]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2024/PAUSHA 26, 1945	[N. C. T. D. No. 389

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

## अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2024

फा0 सं0 सी0ई0ओ0/प्रशा0/106(27)/चालक भर्ती नियम/2022/288.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली में “स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड” के पद की भर्ती पद्धति संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (1) इन नियमों को “स्टाफ कार चालक, सामान्य ग्रेड” भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :-**वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव:-** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)
2.	पदों की संख्या	:	01* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-‘ग’, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय)  टीप:- आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।  *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:- (i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। (ii) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। (iii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)। (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।  वांछनीय:- होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में 3 वर्ष की सेवा। टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

		टीप 2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: 02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	: पदोन्नति :- ग्रेड में 03 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/- रुपये) में समूह-ग कर्मचारियों तथा जिस कार्यालय में रिक्ति है; परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित कौशल परीक्षण उत्तीर्ण करने वाले, हल्के मोटर वाहन लाइसेंसधारी में से होगी।  टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	: समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0 सुधा0) -अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष -सदस्य 3. उप-सचिव (सा0प्रशा0वि0) -सदस्य  टीप :-यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

टीप :- यह अधिसूचना दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों में चालक (भारी मोटर वाहन तथा हल्के मोटर वाहन) के पद के संबंध में सेवाएं-II विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिनांक 20.08.1991 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या फा0 2(8)/91-एस0II के अधिक्रमण में जारी की जा रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

सतेन्द्र कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (प्रशा0)

## OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

## NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2024

**F. No. CEO/Admn/106 (27)/RRs Driver/2022/288.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R.840, dated the 13<sup>th</sup> July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regarding the method of recruitment to the post of “**Staff Car Driver, Ordinary Grade**” in the Office of the Chief Electoral Officer, Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called “Staff Car Driver, Ordinary Grade” Recruitment Rules, 2023.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in the Pay Matrix:** - The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.:-** The method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications :-** No person, –  
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** –Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule in respect of any class or category of persons.
6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

(Name of the post)	(Number of Post)	(Classification)	(Pay Level in the Pay Matrix)	(Whether Selection or Non-Selection Post)
1.	2.	3.	4.	5.
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	<b>01* (2023)</b> * Subject to variation dependent on work-load	General Service “C” Non Gazetted, Non Ministerial	Level -2 (Rs. 19900-63200/-) in Pay Matrix	Non Selection

(Age Limit for Direct Recruits)	(Educational and other qualifications required for direct recruits)	(Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees)	(Period of prob, If any)
6.	7.	8.	9.
<p>18-25 years*</p> <p>(Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.</p> <p>*In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.</p>	<p><b>Essential:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pass in 10<sup>th</sup> Standard.</li> <li>2. Possession of a Valid Driving License for Motor Cars.</li> <li>3. Knowledge of Motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in Vehicle).</li> <li>4. Experience of Driving a Motor Car for at least three years.</li> </ol> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Three Years' service as Home Guard /Civil Volunteers.</p> <p><b>Note 1:</b></p> <p>Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b></p> <p>The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	No	Two Years for Direct recruits

(Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by Deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods)	(In case of rectt. By Promotion/Deputation/absorption grades from which promotion/deputation /absorption to be made.	(If a DPC exists what is its Composition)	(Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making Recruitment)
10.	11.	12.	13.
By Promotion failing which by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b> From amongst Group C employees in the Pay Level -1 (Rs. 18000-56900/-) of the Pay Matrix with 03 years of regular service in the Grade and having License of Light Motor Vehicle in the office in which the vacancy arises subject to passing a skill test conducted by Transport Department, GNCTD.</p> <p><b>Note:</b> <i>Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service</i></p>	<p>Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering promotion/ confirmation) 1. Principal Secretary/Secretary (AR): <b>Chairman</b> 2. Head of Department Concerned: <b>Member</b> 3. Dy. Secretary (GAD): <b>Member</b></p> <p><b>Note:</b> <i>Senior most member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee</i></p>	Not Applicable

Note: This notification is being issued in suppression of earlier notification No. F 2(8)/91-S.II dated 20.08.1991 issued by Services-II Department, GNCTD in respect of the post of Driver (Heavy Motor Vehicle) & (Light Motor Vehicle) in the offices of Delhi Administration.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
SATENDRA KUMAR, Asstt. Chief Electoral Officer (Admn.)